

27/5/25

## June Month Portion and Notes

Portion :-

पाठ : २. हवा की मुखिल

पाठ : ३. विमानों की सीख

Notes :- पाठ : २. हवा की मुखिल

I शब्दार्थ :-

हिन्दी और अंग्रेजी अर्थ

Pg. no. 10, 11 and 12

II सही विकल्प पर (✓) लगाओ :-

क) सभी को आराम करते देख हवा ने क्या सोचा ?

उत्तर : एक मैं ही हूँ, जो कभी आराम नहीं करती।

ख) हवा पेड़ों से लुढ़ककर उस पार क्यों जा गिरी ?

उत्तर : पेड़ इधर-उधर झुका गए थे।

ग) बगीचे की जमीन सूखे पत्तों से क्यों ढकी हुई थी ?

उत्तर : पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे।

घ) हवा झील के पानी की ओर क्यों गई ?

उत्तर : वह पानी पर आराम करना चाहती थी।

### III रिक्त स्थानों को भरें :-

- क) पानी
- ख) हवा
- ग) गुब्बारेवाले
- घ) घुटन

iv हवा क्या सोचकर इन जगहों पर आराम करने गई?

- क) उत्तर :- थोड़ी देर चैन से बैठा जा सकता है।
- ख) उत्तर :- पर लेटना मजेदार होगा।
- ग) उत्तर :- हवा ने सोचा कि झील का पानी भागकर कहीं नहीं जाएगा। कुछ देर यहीं लेटकर आराम कर लेती हूँ।

घ) उत्तर :- हवा ने सोचा कि अब यहाँ उसे कोई परेशान नहीं करेगा।

v जब हवा इनके पास पहुँची तब इन्होंने क्या किया?

क) पैड़ - पैड़ इधर - उधर झुक गए।

ख) सूखे पत्ते - सूखे पत्ते उछल - कूदकर दूर

भागने लगे।



ग) झील का पानी हिलने लगाना।

ज) सही शब्दों से रिक्त स्थानों को भरो।

क) हुवा चलते-चलते थक गई थी।

ख) बच्चा झूले में सोया था।

ग) अफसर ऑफिस से नौरा था।

घ) बगीचे की जमीन सूखे पत्तों से ढकी थी।

व्यक्ति (Person)	वस्तु (Thing)	स्थान (Place)
राजू	झूल	बालकनी
अनीता	बिस्किट	ऑफिस
राजकुमार	आराम-कुरसी	लॉन

ज) "ता" लगाकर ऐसे शब्द बनाओ, जिनसे भाव का पता चलता हो :-

क) वीर - वीरता

ख) मूर्ख - मूर्खता

ग) मित्र - मित्रता

घ) कायर - कायरता

ङ) सुंदर - सुंदरता

च) एक - एकता

पाठ: 3. विवेकानंद की सीख (16)

I

शब्दार्थ कि विवेकानंद नाम. कि विवेकानंद नाम

(हिन्दी और अंग्रेजी अर्थ पृ. नं. 17, 18 and 19)

II

मौखिक प्रश्नोत्तर

1. पाठ में किसके जीवन की घटना का वर्णन है?

उत्तर : पाठ में स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना का वर्णन है।

2. एक सप्ताह के बाद अपने शिष्य को लौटा देने हुए विवेकानंद ने क्या कहा?

उत्तर : एक सप्ताह के बाद अपने शिष्य को लौटा देने हुए विवेकानंद ने कहा, "मैंने एक सप्ताह से इसे माँजा नहीं है। इसकी चमक लीकी पड़ने लगी है। आज तुम इस लौटे को माँजकर चमका दो।"

3. विवेकानंद ने शिष्य से क्यों पूछा, "क्या तुम्हें लौटा माँजा नहीं?"

उत्तर : विवेकानंद ने शिष्य से ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि लौटा पूरी तरह साफ नहीं लग रहा था।



4. शिष्य ने लोहे को किस प्रकार चमकाने की कोशिश की ?

उत्तर: शिष्य ने लोहे को पहले केवल पानी से धोकर साफ किया। फिर जूने से कई बार मँजकर चमकाने की कोशिश की।

5. विवेकानंद के अनुसार किसी काम में निपुण होने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

उत्तर: विवेकानंद के अनुसार किसी काम में निपुण होने के लिए उसका रोज अभ्यास करना चाहिए।

III सही विकल्प पर (✓) लगाओ :-

क) विवेकानंद का लोहा किस धातु से बना था ?

उत्तर: पीतल से

ख) शिष्य ने लोहे को कब मँजने के लिए कहा ?

उत्तर: कभी-कभी

ग) विवेकानंद ने लोहे को कितने दिन नहीं मँजा ?

उत्तर: एक सप्ताह

१७ रिक्त स्थानों को भरें :-

क) स्वामी विवेकानंद ने विश्व में भारत का नाम  
रौशन किया ।

ख) विवेकानंद अपने पीतल के लोटे को प्रतीक  
मँजते थे ।

ग) एक सप्ताह लोटा न मँजने से उसकी चमक  
फीकी पड़ने लगी ।

घ) अभ्यास न करने से हम सीखा हुआ सब भूल जायेंगे ।

१८ किसने कहा ? किससे कहा ?

किसने कहा ?

किससे कहा ?

क) शिष्य ने

विवेकानंद से

ख) विवेकानंद ने

शिष्य से

१९ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर :-

क) उत्तर : विवेकानंद लोटे को रोज सुबह उठकर मँजते थे ।

ख) उत्तर : रोज-रोज मँजने से लोटा चमक जाता था और  
पहले से भी अधिक नया-सा लगने लगता था ।

ग) उत्तर : शिष्य के अनुसार लोटे को कभी-कभी, जब लोटा  
तब मँजना चाहिए ।



घ) उत्तर: प्रतिदिन अभ्यास नहीं करेंगे तो जो सीख रहे हैं वह सब भूल जाएँगे।

॥ क्रिया का रूप लिंग के अनुसार होता है।

क) फूल खिल रहा है। पुल्लिंग

ख) बकरी चर रही है। स्त्रीलिंग

ग) कपड़ा सूख रहा है। पुल्लिंग

घ) हुंवा बह रही है। स्त्रीलिंग

ङ) पत्र आया है। पुल्लिंग

च) शेर गुराता है। पुल्लिंग

छ) नदी बहती है। स्त्रीलिंग

ज) दीया जल गया है। पुल्लिंग

झ) मिर्च लग गई है। स्त्रीलिंग

ञ) पुस्तक रखी है। स्त्रीलिंग

॥ सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें :-

क) चौर ने पीतल का लोहा चुराया है।

ख) बच्चे ने सिर पर टोपी पहनी है।

ग) मैंने गुड़िया खरीदी है।

घ) पानी से घड़ा भरा हुआ है।

ड.) मेज पर कटोरी रखी है।

ix) रंगीन शब्दों के लिंग पहचानो। पुल्लिंग शब्दों को रेखांकित करो और स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाओ :-

घर पहुँचकर (चाबी) निकाली। ताला खोला। (गरमी) लगा रही थी। सबसे पहले पंखा चलाया।

परदा हटाया। एक गिलास लिया। पानी डाला

और पीने लगा। फिर (कुरसी) उठाई और

उसपर बैठा गया। (भूख) लगी थी। कटोरी में

(खीर) डाली और खाने लगा।

स्वामी विवेकानंद के बारे में दी गई जानकारी के

आधार पर अनुच्छेद पूरा करो :-

विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ

था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था।

उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी

माता का नाम मुनैश्वरी देवी था। 4 जुलाई



1902 को विवेकानंद की मृत्यु हो गई।

Complete all the book back exercises  
in the text book.